FACULTY ACHIEVEMENTS



Recognitions: HOD received an excellence award in community service during the COVID-19 pandemic from the District Administration Raipur (CMHO) for counseling approx. 3000 patients and their relatives by their faculty team and students of the Department.



कोरोगा संक्रमिली का मनोबल बहाने और उनकी समस्याएं जानने मेंट्स पुनिवसिंटो के मनोविजन विध्यल ने अनिलाइन बाउंसवेल राष्ट्री। विश्वल के 15 मेंबल बी टीम ने एक महीने में 1500 कोरोज फेरेंट की बाउंसवील बी। विध्यालध्यम ही लाइसल अंसपी ने कारण कि मुझल पिकिस्स एवं स्वास्थन अधिकारी प्रथम ने बोरोना संक्रमिलों की बाउंसवील के लिए सहयोग पांच था, जिसके साट रुपने टीम मनकर काउंजिलिल सुरू की। लाभग 60 प्रतिलात फेरेंट ने बाज कि वे होन्द्र में नुजर ही हैं। लाभग 50 प्रतिलात फेरेंट ने बाज कि वे होन्द्र में नुजर ही हैं। लाभग 50 प्रतिलात फेरेंट ने बाज कि वे होन्द्र में नुजर ही हैं। लाभग 50 प्रतिलात फोरोजे ने नीट न आने की ममस्थ प्रान्ती, कही, 50 प्रतिलात फीरों में ने नीट न आने की मामस्थ प्रत्यां। वहीं, 50 प्रतिलात फीरोजे ने नीट न आने की मामस्थ प्रत्यां। वहीं, 50 प्रतिलात के स्वेट स्वेट प्रते की से स्थान प्रे प्रत्या हो काम को बार-बार क्या धीना। जनिवार की संख्यन ने स्टेक्सन मोक्स रखा। हममें मोएचसप्रको ही, मीर

सराजन - बहुत स्ट्रेस में हु, कर करूं ? करेंगे। कुछ विजेकाल एक्टिस्टी कर ले, बॉर्ड जन्माब - कोरेज में पबराएं नहीं। अब जरू बकेंगी जे लेंद अच्छों अगरत ठा

देश के लाखों लोग इस कीमरों को हम चुके है। आप सेल्फ एसलिमिया करें, ये देखें कि क्या आपको कोई एंफीर कीमरों है, क्या आपको स्थेम लेने में दिख्यत हो रही है, आप एंसा है ले डॉक्टर से बाल कर हमियरन में एडसिट के खरों, के आप ऐसा नहीं है जे दिखा न कर कर हॉकीन को स्थाप दे। फिल्मे देखें। इंडोर मेव खेलें। दोगलें से बाल करें। सरकाल – नींद साथक हो रहे क्या करने ? जावन में नींद साथक हो रहे क्या करने ? करेंगे। कुछ विदेशसल एक्टिस्टिंगे कर से, बॉरी बकेंगे तो तरेंद आच्छो आएंगे। आसत कर भवाएं और सुल छने को कंगिल करें। इन उपल्ये में अलग क किने तो पेकट्राप करवादां। मखाल - बार न्यार हाम पोने लगा हूं? जवाब - यह ओसीडी पानी ऑस्टेसिय कप्रवासिय हिम्प्रआंदिर का लक्षण है। इम डिप्प्रआंदेर में व्यक्ति एक ही कप्रव को बार-बार करते हैं। ये इर व बहुत न्याद से क्या को बार-बार करते हैं। ये इर व बहुत न्याद से क्या को बार-बार करते हैं। ये इर व बहुत न्याद से की कारण होता है। दो नहीं, स्वायन्य रहे। मखाल - दो बार कोरोना संक्रमित हो चुका हू, संस्वर्थ्यों से दूर होने का इर साल रहा है? जावान - ऐसे बार वान में न लगा। अं